

**प्रेस नोट-दिनांक 06.02.2021**

**थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली**

**थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolice द्वारा एक अभियुक्त मनीष को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 239 पेटी अंग्रेजी शराब (बाजार में कीमत करीब 31,50,000 रुपये) बरामद।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे शराब माफियों के विरुद्ध अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर बरेली व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय जनपद बरेली के निर्देशन में गश्त के दौरान थाना हाजा पर नवदिया झादा थाना बिथरी चैनपुर बरेली से गश्ती दल जो व0उ0नि0 राकेश सिंह के नेतृत्व में संदिग्ध वाहनों की चैकिंग कर रहे थे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक ट्रक जिसका नं0 RJ11GA6111 जिसमें एक लोहे का बड़ा बक्सा टाइप रखा है और उसी बक्से में अवैध अंग्रेजी शराब भरी है जो हरियाणा से रामपुर होता हुआ आ रहा है और बिहार जा रहा है। मुखबिर की सूचना को सही मानते हुए नवदिया झादा पुल से थोड़ा पीछे की तरफ पर्याप्त फोर्स बुलाकर एक वैरिगेटिंग लगाकर कड़ी निगरानी रखते हुए चैकिंग शुरू की तथा कुछ दूरी पर उ0नि0 श्री ओमकुमार व उ0नि0 श्री दीपक कुमार के नेतृत्व में फोर्स चैकिंग हेतु लगाया गया। ट्रक आने पर उसे रोकने का प्रयास किया तो ट्रक वैरियर तोड़ता हुआ तेज रफ्तार में निकल गया। तब हम पुलिस वालों ने तुरन्त ही जरिये फोन अगली टीम जो नवदिया झादा से करीब 1.5 कि0मी0 आगे लगा रखी थी, ने एक ट्रैक्टर ट्राली को सड़क पर लम्बा लम्बा करके लगा लिया और पहली टीम भी पीछा करती हुई आ गयी। तब ड्राइवर ने अपने को फँसा देखकर ट्रक को रोक लिया और उसका एक साथी खिड़की से कूदकर जंगल में भाग निकला जिसका पीछा किया तो हाथ नहीं लग पाया तथा ड्राइवर को मौके पर ही पकड़कर न रुकने और भागने का कारण पूछा तो बताया कि साहब मेरे इस ट्रक में ऊपर बड़े टैंक में हरियाणा मार्का की करीब 250 पेटी अंग्रेजी शराब भरी है। आप पकड़ लेंगे इसी डर की वजह से मैं नहीं रोक रहा था। नाम पता पूछने पर अपना नाम मनीष पुत्र रमेश नाई निवासी ठानपुर कला थाना गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा बताया। भागे हुए व्यक्ति का नाम काला पुत्र नामालूम निवासी परमाना (गुन्ध) जनपद पानीपत बताया। ट्रक व ड्राइवर को समय 14.35 बजे कब्जा पुलिस लिया गया। गाडी को चैक किया गया तो उसमें अंग्रेजी देशी शराब भरी है जिसके कागज तलब किये तो दिखाने में कासिर रहा बल्की नकली कागज दिखाये। इसी दौरान आबकारी विभाग के श्री अमित कुमार मिश्रा आबकारी निरीक्षक सैक्टर 3 बरेली मय हमराह फोर्स के उपस्थित आये जिन्होंने दारू को चैक किया लेवल भिन्न पाया गया। अभियुक्त को मय माल के हिरासत पुलिस में लेकर थाना लाकर अभियोग पंजीकृत किया गया।

### नाम पता अभियुक्तगण:-

1. मनीष पुत्र रमेश नाई निवासी ठानपुर कला थाना गुहाना जिला सोनीपत हरियाणा (गिरफ्तार)
2. काला पुत्र नामालूम निवासी परमाना (गुन्ध) जनपद पानीपत (फरार)
3. मनोज नाम पता अज्ञात (फरार)

### बरामदगी:-

- 1- 239 पेटी अग्रेजी शराब (2126.88 लीटर) ( बाजार मे कीमती करीब 3150000/-रुपये)
- 2- एक अदद ट्रक नं0 RJ11GA6111 ( 06 टायरा कीमती लगभग 18,00,000/-रुपये)

### मनीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0-57/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि0 थाना बिथरी चैनपुर

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- SHO श्री अशोक कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।
- 2- SSI श्री राकेश सिंह थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।
- 3- उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।
- 4- उ0नि0 ओमकुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।
- 5- का0 1295 हेमन्त थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।
- 6- का0 1336 भैयालाल वर्मा थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

सोशल मीडिया सेल  
जनपद बरेली।

